



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012020-215420
CG-DL-E-15012020-215420

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]
No.131]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2020

का.आ. 141(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130ए के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 15.600 तक के भू-खण्ड (बिलासपुर-उरगा सेक्शन) का (चौड़ा करने / चार लेन का बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर, जिला -बिलासपुर (छ.ग.) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130ए के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 15.600 तक (बिलासपुर -उरगा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

| राज्य का नाम: छत्तीसगढ़ | | जिले का नाम: बिलासपुर | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) |
| तालुक का नाम: मस्तूरी | | | | | |
| गांव का नाम: गतौरा | | | | | |
| 1 | 3395/2 | निजी | कृषि | 0.0970000(हेक्टेयर) | 0.0970000 |
| 2 | 3396/1,3397/6 | निजी | कृषि | 0.0310000(हेक्टेयर) | 0.0310000 |
| 3 | 3396/2 | निजी | कृषि | 0.2090000(हेक्टेयर) | 0.2090000 |
| 4 | 3397/1 | निजी | कृषि | 0.0730000(हेक्टेयर) | 0.0730000 |
| 5 | 3397/3,3397/4,3397/7 | निजी | कृषि | 0.3880000(हेक्टेयर) | 0.3880000 |
| 6 | 3397/5 | निजी | कृषि | 0.1450000(हेक्टेयर) | 0.1450000 |
| 7 | 3397/9 | निजी | कृषि | 0.1530000(हेक्टेयर) | 0.1530000 |
| 8 | 3398 | निजी | कृषि | 0.1870000(हेक्टेयर) | 0.1870000 |
| 9 | 3399/2 | निजी | कृषि | 0.0610000(हेक्टेयर) | 0.0610000 |
| 10 | 3401/2 | निजी | कृषि | 0.0070000(हेक्टेयर) | 0.0070000 |
| 11 | 3401/3 | निजी | कृषि | 0.0970000(हेक्टेयर) | 0.0970000 |
| 12 | 3402/1 | निजी | कृषि | 0.2020000(हेक्टेयर) | 0.2020000 |
| 13 | 3402/2 | निजी | कृषि | 0.1460000(हेक्टेयर) | 0.1460000 |
| 14 | 3403/1 | निजी | कृषि | 0.1230000(हेक्टेयर) | 0.1230000 |
| 15 | 3403/2 | निजी | कृषि | 0.1420000(हेक्टेयर) | 0.1420000 |
| 16 | 3403/3 | निजी | कृषि | 0.2300000(हेक्टेयर) | 0.2300000 |
| 17 | 3405/1 | निजी | कृषि | 0.0210000(हेक्टेयर) | 0.0210000 |
| 18 | 3409 | निजी | कृषि | 0.0380000(हेक्टेयर) | 0.0380000 |
| 19 | 3410 | निजी | कृषि | 0.0830000(हेक्टेयर) | 0.0830000 |
| 20 | 3411 | निजी | कृषि | 0.1620000(हेक्टेयर) | 0.1620000 |
| 21 | 3412/1 | निजी | कृषि | 0.1940000(हेक्टेयर) | 0.1940000 |

| | | | | | |
|----|--|--------|----------|---------------------|-----------|
| 22 | 3412/2 | निजी | कृषि | 0.1940000(हेक्टेयर) | 0.1940000 |
| 23 | 3413/1 | निजी | कृषि | 0.1416000(हेक्टेयर) | 0.1416000 |
| 24 | 3423/1 | निजी | कृषि | 0.0570000(हेक्टेयर) | 0.0570000 |
| 25 | 3424/1 | निजी | कृषि | 0.1450000(हेक्टेयर) | 0.1450000 |
| 26 | 3424/10 | निजी | कृषि | 0.1010000(हेक्टेयर) | 0.1010000 |
| 27 | 3424/11 | निजी | कृषि | 0.2120000(हेक्टेयर) | 0.2120000 |
| 28 | 3424/2 | निजी | कृषि | 0.1470000(हेक्टेयर) | 0.1470000 |
| 29 | 3424/3 | निजी | कृषि | 0.0240000(हेक्टेयर) | 0.0240000 |
| 30 | 3424/4 | निजी | कृषि | 0.0030500(हेक्टेयर) | 0.0030500 |
| 31 | 3424/8 | निजी | कृषि | 0.0900000(हेक्टेयर) | 0.0900000 |
| 32 | 3424/9 | निजी | कृषि | 0.0850000(हेक्टेयर) | 0.0850000 |
| 33 | 3425 | निजी | कृषि | 0.3220000(हेक्टेयर) | 0.3220000 |
| 34 | 3426/1,3426/2,3426/3, 3426/5,3426/6 | निजी | कृषि | 0.3610000(हेक्टेयर) | 0.3610000 |
| 35 | 3426/7 | निजी | कृषि | 0.1320000(हेक्टेयर) | 0.1320000 |
| 36 | 3426/8 | निजी | कृषि | 0.2430000(हेक्टेयर) | 0.2430000 |
| 37 | 3426/9 | निजी | कृषि | 0.0850000(हेक्टेयर) | 0.0850000 |
| 38 | 3439/2 | निजी | कृषि | 0.0520000(हेक्टेयर) | 0.0520000 |
| 39 | 3439/3 | निजी | कृषि | 0.4620000(हेक्टेयर) | 0.4620000 |
| 40 | 3441/1 | निजी | कृषि | 0.3450000(हेक्टेयर) | 0.3450000 |
| 41 | 3441/2 | निजी | कृषि | 0.1620000(हेक्टेयर) | 0.1620000 |
| 42 | 3441/3 | निजी | कृषि | 0.0500000(हेक्टेयर) | 0.0500000 |
| 43 | 3443/1 | निजी | कृषि | 0.0210000(हेक्टेयर) | 0.0210000 |
| 44 | 3443/2 | निजी | कृषि | 0.1260000(हेक्टेयर) | 0.1260000 |
| 45 | 3443/5 | निजी | कृषि | 0.3590000(हेक्टेयर) | 0.3590000 |
| 46 | 3443/6 | निजी | कृषि | 0.1210000(हेक्टेयर) | 0.1210000 |
| 47 | 3444 | सरकारी | शैर कृषि | 0.2550000(हेक्टेयर) | 0.2550000 |
| 48 | 3447 | निजी | कृषि | 0.0590000(हेक्टेयर) | 0.0590000 |
| 49 | 3448/1 | निजी | कृषि | 0.0820000(हेक्टेयर) | 0.0820000 |
| 50 | 3448/2 | निजी | कृषि | 0.1300000(हेक्टेयर) | 0.1300000 |
| 51 | 3462 | सरकारी | शैर कृषि | 0.2792000(हेक्टेयर) | 0.2792000 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------|----------|---------------------|-----------|
| 52 | 3826 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0809000(हेक्टेयर) | 0.0809000 |
| 53 | 3827/2 | निजी | कृषि | 0.2320000(हेक्टेयर) | 0.2320000 |
| 54 | 3828/1,3828/2,3828/3, 3828/4,3828/5 | निजी | कृषि | 0.4550000(हेक्टेयर) | 0.4550000 |
| 55 | 3829/1 | निजी | कृषि | 0.3340000(हेक्टेयर) | 0.3340000 |
| 56 | 3829/2,3830 | निजी | कृषि | 0.6550000(हेक्टेयर) | 0.6550000 |
| 57 | 3829/3 | निजी | कृषि | 0.6010000(हेक्टेयर) | 0.6010000 |
| 58 | 3832/8 | निजी | कृषि | 0.1080000(हेक्टेयर) | 0.1080000 |
| 59 | 3843 | सरकारी | गैर कृषि | 0.1781000(हेक्टेयर) | 0.1781000 |
| 60 | 3854/1 | निजी | कृषि | 0.1060000(हेक्टेयर) | 0.1060000 |
| 61 | 3854/2 | निजी | कृषि | 0.1660000(हेक्टेयर) | 0.1660000 |
| 62 | 3855/2 | निजी | कृषि | 0.0970000(हेक्टेयर) | 0.0970000 |
| 63 | 3856/1 | निजी | कृषि | 0.1040000(हेक्टेयर) | 0.1040000 |
| 64 | 3856/2 | निजी | कृषि | 0.2020000(हेक्टेयर) | 0.2020000 |
| 65 | 3857 | निजी | कृषि | 0.0240000(हेक्टेयर) | 0.0240000 |
| 66 | 3865/1 | निजी | कृषि | 0.2430000(हेक्टेयर) | 0.2430000 |
| 67 | 3865/2,3865/7 | निजी | कृषि | 0.0370000(हेक्टेयर) | 0.0370000 |
| 68 | 3865/5 | निजी | कृषि | 0.1790000(हेक्टेयर) | 0.1790000 |
| 69 | 3865/6 | निजी | कृषि | 0.2430000(हेक्टेयर) | 0.2430000 |
| 70 | 3865/8 | निजी | कृषि | 0.0100000(हेक्टेयर) | 0.0100000 |
| 71 | 3866/1 | निजी | कृषि | 0.0100000(हेक्टेयर) | 0.0100000 |
| 72 | 3866/2, 3866/4 | निजी | कृषि | 0.5000000(हेक्टेयर) | 0.5000000 |
| 73 | 3866/3 | निजी | कृषि | 0.0070000(हेक्टेयर) | 0.0070000 |
| 74 | 3868 | निजी | कृषि | 0.2830000(हेक्टेयर) | 0.2830000 |
| 75 | 3869/2 | निजी | कृषि | 0.0780000(हेक्टेयर) | 0.0780000 |
| 76 | 3869/3,3869/4,3869/5, 3869/6 | निजी | कृषि | 0.2810000(हेक्टेयर) | 0.2810000 |
| 77 | 3869/9 | निजी | कृषि | 0.0230000(हेक्टेयर) | 0.0230000 |
| गांव का नाम: मुडपार | | | | | |
| 1 | 117/6 | निजी | कृषि | 1.1433000(हेक्टेयर) | 1.1433000 |
| 2 | 118/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.7040000(हेक्टेयर) | 0.7040000 |

| | | | | | |
|----|-------------|--------|----------|---------------------|-----------|
| 3 | 138 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0230000(हेक्टेयर) | 0.0230000 |
| 4 | 149/1 | निजी | कृषि | 0.1802000(हेक्टेयर) | 0.1802000 |
| 5 | 149/2 | निजी | कृषि | 0.1418000(हेक्टेयर) | 0.1418000 |
| 6 | 150/1 | निजी | कृषि | 0.0243000(हेक्टेयर) | 0.0243000 |
| 7 | 150/2 | निजी | कृषि | 0.2630000(हेक्टेयर) | 0.2630000 |
| 8 | 153/1 | निजी | कृषि | 0.1420000(हेक्टेयर) | 0.1420000 |
| 9 | 153/2 | निजी | कृषि | 0.1540000(हेक्टेयर) | 0.1540000 |
| 10 | 154/1 | निजी | कृषि | 0.0390000(हेक्टेयर) | 0.0390000 |
| 11 | 154/2 | निजी | कृषि | 0.3108000(हेक्टेयर) | 0.3108000 |
| 12 | 155/2 | निजी | कृषि | 0.0048000(हेक्टेयर) | 0.0048000 |
| 13 | 157/1 | निजी | कृषि | 0.7794000(हेक्टेयर) | 0.7794000 |
| 14 | 157/11 | निजी | कृषि | 0.2020000(हेक्टेयर) | 0.2020000 |
| 15 | 157/12 | निजी | कृषि | 0.2020000(हेक्टेयर) | 0.2020000 |
| 16 | 157/15 | निजी | कृषि | 0.5023000(हेक्टेयर) | 0.5023000 |
| 17 | 157/21 | निजी | कृषि | 0.0120000(हेक्टेयर) | 0.0120000 |
| 18 | 157/9 | निजी | कृषि | 0.0142000(हेक्टेयर) | 0.0142000 |
| 19 | 158/2 | निजी | कृषि | 0.0067000(हेक्टेयर) | 0.0067000 |
| 20 | 159 | निजी | कृषि | 0.1773000(हेक्टेयर) | 0.1773000 |
| 21 | 160/1,160/2 | निजी | कृषि | 0.2985000(हेक्टेयर) | 0.2985000 |
| 22 | 161/1 | निजी | कृषि | 1.0275000(हेक्टेयर) | 1.0275000 |
| 23 | 161/2 | निजी | कृषि | 0.0120000(हेक्टेयर) | 0.0120000 |
| 24 | 161/3 | निजी | कृषि | 0.5471000(हेक्टेयर) | 0.5471000 |
| 25 | 161/4 | निजी | कृषि | 0.5872000(हेक्टेयर) | 0.5872000 |
| 26 | 162/2 | निजी | कृषि | 0.0033000(हेक्टेयर) | 0.0033000 |
| 27 | 175/2 | निजी | कृषि | 0.1610000(हेक्टेयर) | 0.1610000 |
| 28 | 176/2 | निजी | कृषि | 0.1670000(हेक्टेयर) | 0.1670000 |
| 29 | 177/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.2690000(हेक्टेयर) | 0.2690000 |
| 30 | 177/2 | निजी | कृषि | 0.0356000(हेक्टेयर) | 0.0356000 |
| 31 | 179/1 | निजी | कृषि | 0.2020000(हेक्टेयर) | 0.2020000 |
| 32 | 179/10 | निजी | कृषि | 0.2280000(हेक्टेयर) | 0.2280000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|----------|---------------------|-----------|
| 33 | 179/11 | निजी | कृषि | 0.1792000(हेक्टेयर) | 0.1792000 |
| 34 | 179/2 | निजी | कृषि | 0.0560000(हेक्टेयर) | 0.0560000 |
| 35 | 179/3 | निजी | कृषि | 0.2020000(हेक्टेयर) | 0.2020000 |
| 36 | 179/4 | निजी | कृषि | 0.0184000(हेक्टेयर) | 0.0184000 |
| 37 | 179/5 | निजी | कृषि | 0.1137000(हेक्टेयर) | 0.1137000 |
| 38 | 179/6 | निजी | कृषि | 0.2020000(हेक्टेयर) | 0.2020000 |
| 39 | 179/8 | निजी | कृषि | 0.0060000(हेक्टेयर) | 0.0060000 |
| 40 | 179/9 | निजी | कृषि | 0.0259000(हेक्टेयर) | 0.0259000 |
| 41 | 180 | निजी | कृषि | 0.1974000(हेक्टेयर) | 0.1974000 |
| 42 | 182/1 | निजी | कृषि | 0.1076000(हेक्टेयर) | 0.1076000 |
| 43 | 182/2 | निजी | कृषि | 0.0320000(हेक्टेयर) | 0.0320000 |
| 44 | 182/3 | निजी | कृषि | 0.0280000(हेक्टेयर) | 0.0280000 |
| 45 | 310 | सरकारी | गैर कृषि | 0.6520000(हेक्टेयर) | 0.6520000 |
| 46 | 312 | निजी | कृषि | 0.0471000(हेक्टेयर) | 0.0471000 |
| 47 | 328 | निजी | कृषि | 0.1106000(हेक्टेयर) | 0.1106000 |
| 48 | 41/1 | सरकारी | गैर कृषि | 0.1197000(हेक्टेयर) | 0.1197000 |
| 49 | 41/5 | सरकारी | गैर कृषि | 0.1613000(हेक्टेयर) | 0.1613000 |
| 50 | 41/6 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0462000(हेक्टेयर) | 0.0462000 |
| 51 | 76 | सरकारी | गैर कृषि | 0.2945000(हेक्टेयर) | 0.2945000 |
| 52 | 88 | निजी | कृषि | 0.2167000(हेक्टेयर) | 0.2167000 |
| 53 | 89 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0280000(हेक्टेयर) | 0.0280000 |
| 54 | 90 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0490000(हेक्टेयर) | 0.0490000 |
| 55 | 91 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0520000(हेक्टेयर) | 0.0520000 |
| 56 | 92/3 | निजी | कृषि | 0.2832000(हेक्टेयर) | 0.2832000 |
| गांव का नाम: नवागांव | | | | | |
| 1 | 197/1 | निजी | कृषि | 0.3829000(हेक्टेयर) | 0.3829000 |
| 2 | 197/2 | निजी | कृषि | 0.2224000(हेक्टेयर) | 0.2224000 |
| 3 | 198/1 | निजी | कृषि | 0.1486000(हेक्टेयर) | 0.1486000 |
| 4 | 198/2 | निजी | कृषि | 0.2941000(हेक्टेयर) | 0.2941000 |
| 5 | 198/3 | निजी | कृषि | 0.0947000(हेक्टेयर) | 0.0947000 |

| | | | | | |
|----|-------|------|------|---------------------|-----------|
| 6 | 199/1 | निजी | कृषि | 0.0283000(हेक्टेयर) | 0.0283000 |
| 7 | 199/2 | निजी | कृषि | 0.1814000(हेक्टेयर) | 0.1814000 |
| 8 | 201/2 | निजी | कृषि | 0.0159000(हेक्टेयर) | 0.0159000 |
| 9 | 223/1 | निजी | कृषि | 0.1356000(हेक्टेयर) | 0.1356000 |
| 10 | 223/2 | निजी | कृषि | 0.1596000(हेक्टेयर) | 0.1596000 |
| 11 | 223/3 | निजी | कृषि | 0.1660000(हेक्टेयर) | 0.1660000 |
| 12 | 223/4 | निजी | कृषि | 0.0707000(हेक्टेयर) | 0.0707000 |
| 13 | 223/5 | निजी | कृषि | 0.4050000(हेक्टेयर) | 0.4050000 |
| 14 | 223/6 | निजी | कृषि | 0.1630000(हेक्टेयर) | 0.1630000 |
| 15 | 223/7 | निजी | कृषि | 0.4950000(हेक्टेयर) | 0.4950000 |
| 16 | 232/1 | निजी | कृषि | 0.0967000(हेक्टेयर) | 0.0967000 |
| 17 | 232/2 | निजी | कृषि | 0.0273000(हेक्टेयर) | 0.0273000 |
| 18 | 232/4 | निजी | कृषि | 0.0980000(हेक्टेयर) | 0.0980000 |
| 19 | 232/8 | निजी | कृषि | 0.0360000(हेक्टेयर) | 0.0360000 |
| 20 | 232/9 | निजी | कृषि | 0.0730000(हेक्टेयर) | 0.0730000 |
| 21 | 233/2 | निजी | कृषि | 0.0054000(हेक्टेयर) | 0.0054000 |
| 22 | 236/1 | निजी | कृषि | 0.2372000(हेक्टेयर) | 0.2372000 |
| 23 | 236/3 | निजी | कृषि | 0.2830000(हेक्टेयर) | 0.2830000 |
| 24 | 236/4 | निजी | कृषि | 0.0816000(हेक्टेयर) | 0.0816000 |
| 25 | 237/1 | निजी | कृषि | 0.2630000(हेक्टेयर) | 0.2630000 |
| 26 | 237/2 | निजी | कृषि | 0.3240000(हेक्टेयर) | 0.3240000 |
| 27 | 237/3 | निजी | कृषि | 0.1050000(हेक्टेयर) | 0.1050000 |
| 28 | 237/4 | निजी | कृषि | 0.2190000(हेक्टेयर) | 0.2190000 |
| 29 | 237/5 | निजी | कृषि | 0.1540000(हेक्टेयर) | 0.1540000 |
| 30 | 237/7 | निजी | कृषि | 0.1050000(हेक्टेयर) | 0.1050000 |
| 31 | 238/3 | निजी | कृषि | 0.2430000(हेक्टेयर) | 0.2430000 |
| 32 | 239 | निजी | कृषि | 0.9536000(हेक्टेयर) | 0.9536000 |
| 33 | 240 | निजी | कृषि | 0.0816000(हेक्टेयर) | 0.0816000 |
| 34 | 241/1 | निजी | कृषि | 0.2395000(हेक्टेयर) | 0.2395000 |
| 35 | 241/3 | निजी | कृषि | 0.0508000(हेक्टेयर) | 0.0508000 |

| | | | | | |
|----|-------------|--------|------|---------------------|-----------|
| 36 | 247/1 | निजी | कृषि | 0.3570000(हेक्टेयर) | 0.3570000 |
| 37 | 247/2 | निजी | कृषि | 0.1700000(हेक्टेयर) | 0.1700000 |
| 38 | 247/3 | निजी | कृषि | 0.0770000(हेक्टेयर) | 0.0770000 |
| 39 | 247/4 | निजी | कृषि | 0.1210000(हेक्टेयर) | 0.1210000 |
| 40 | 247/6 | निजी | कृषि | 0.2020000(हेक्टेयर) | 0.2020000 |
| 41 | 247/7 | निजी | कृषि | 0.1900000(हेक्टेयर) | 0.1900000 |
| 42 | 247/8 | निजी | कृषि | 0.3220000(हेक्टेयर) | 0.3220000 |
| 43 | 253/1 | निजी | कृषि | 0.0650000(हेक्टेयर) | 0.0650000 |
| 44 | 253/2 | निजी | कृषि | 0.0296000(हेक्टेयर) | 0.0296000 |
| 45 | 253/4 | निजी | कृषि | 0.0971000(हेक्टेयर) | 0.0971000 |
| 46 | 253/5 | निजी | कृषि | 0.1133000(हेक्टेयर) | 0.1133000 |
| 47 | 254/2 | निजी | कृषि | 0.0881000(हेक्टेयर) | 0.0881000 |
| 48 | 279 | सरकारी | पड़त | 1.6326000(हेक्टेयर) | 1.6326000 |
| 49 | 280/1 | निजी | कृषि | 0.3120000(हेक्टेयर) | 0.3120000 |
| 50 | 280/2 | निजी | कृषि | 0.1261000(हेक्टेयर) | 0.1261000 |
| 51 | 280/3 | निजी | कृषि | 0.0810000(हेक्टेयर) | 0.0810000 |
| 52 | 280/4 | निजी | कृषि | 0.0890000(हेक्टेयर) | 0.0890000 |
| 53 | 292/3,292/4 | निजी | कृषि | 0.1938000(हेक्टेयर) | 0.1938000 |
| 54 | 293 | निजी | कृषि | 0.0012000(हेक्टेयर) | 0.0012000 |
| 55 | 297/3 | निजी | कृषि | 0.0271000(हेक्टेयर) | 0.0271000 |
| 56 | 297/4 | निजी | कृषि | 0.2814000(हेक्टेयर) | 0.2814000 |
| 57 | 298/1 | निजी | कृषि | 0.1410000(हेक्टेयर) | 0.1410000 |
| 58 | 298/2 | निजी | कृषि | 0.1420000(हेक्टेयर) | 0.1420000 |
| 59 | 299 | निजी | कृषि | 0.2925000(हेक्टेयर) | 0.2925000 |
| 60 | 300/1 | निजी | कृषि | 0.1170000(हेक्टेयर) | 0.1170000 |
| 61 | 300/3 | निजी | कृषि | 0.1925000(हेक्टेयर) | 0.1925000 |
| 62 | 300/5 | निजी | कृषि | 0.0810000(हेक्टेयर) | 0.0810000 |
| 63 | 301 | निजी | कृषि | 0.1145000(हेक्टेयर) | 0.1145000 |
| 64 | 302/1 | निजी | कृषि | 0.0757000(हेक्टेयर) | 0.0757000 |
| 65 | 309/3 | निजी | कृषि | 0.0083000(हेक्टेयर) | 0.0083000 |

| | | | | | |
|------------|----|--------|----------|---------------------|----------------|
| 66 | 94 | सरकारी | गैर कृषि | 0.0149000(हेक्टेयर) | 0.0149000 |
| कुल | | | | 37.0603 | 37.0603 |

[फा. सं. NHAI/LA/27011/02/Notif.-C.G./Bilaspur/3A15]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2020

S.O. 141(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH130A in the stretch of land from Km 0.000 to Km 15.600 (Bilaspur-Urga Section) in the District of Bilaspur in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (Revenue) Bilaspur (C.G.) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 15.600 (Bilaspur-Urga Section) of NH 130A in the state of Chhattisgarh.

| State: CHHATTISGARH | | District: BILASPUR | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Sl.No. | Survey / Plot Number | Type of Land | Nature Of Land | Area (in Local Unit) | Area (in Hectare) |
| Taluk: Masturi | | | | | |
| Village: Gataura | | | | | |
| 1 | 3395/2 | Private | Agriculture | 0.0970000(Hectare) | 0.0970000 |
| 2 | 3396/1,3397/6 | Private | Agriculture | 0.0310000(Hectare) | 0.0310000 |
| 3 | 3396/2 | Private | Agriculture | 0.2090000(Hectare) | 0.2090000 |
| 4 | 3397/1 | Private | Agriculture | 0.0730000(Hectare) | 0.0730000 |
| 5 | 3397/3,3397/4,3397/7 | Private | Agriculture | 0.3880000(Hectare) | 0.3880000 |
| 6 | 3397/5 | Private | Agriculture | 0.1450000(Hectare) | 0.1450000 |
| 7 | 3397/9 | Private | Agriculture | 0.1530000(Hectare) | 0.1530000 |
| 8 | 3398 | Private | Agriculture | 0.1870000(Hectare) | 0.1870000 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 9 | 3399/2 | Private | Agriculture | 0.0610000(Hectare) | 0.0610000 |
| 10 | 3401/2 | Private | Agriculture | 0.0070000(Hectare) | 0.0070000 |
| 11 | 3401/3 | Private | Agriculture | 0.0970000(Hectare) | 0.0970000 |
| 12 | 3402/1 | Private | Agriculture | 0.2020000(Hectare) | 0.2020000 |
| 13 | 3402/2 | Private | Agriculture | 0.1460000(Hectare) | 0.1460000 |
| 14 | 3403/1 | Private | Agriculture | 0.1230000(Hectare) | 0.1230000 |
| 15 | 3403/2 | Private | Agriculture | 0.1420000(Hectare) | 0.1420000 |
| 16 | 3403/3 | Private | Agriculture | 0.2300000(Hectare) | 0.2300000 |
| 17 | 3405/1 | Private | Agriculture | 0.0210000(Hectare) | 0.0210000 |
| 18 | 3409 | Private | Agriculture | 0.0380000(Hectare) | 0.0380000 |
| 19 | 3410 | Private | Agriculture | 0.0830000(Hectare) | 0.0830000 |
| 20 | 3411 | Private | Agriculture | 0.1620000(Hectare) | 0.1620000 |
| 21 | 3412/1 | Private | Agriculture | 0.1940000(Hectare) | 0.1940000 |
| 22 | 3412/2 | Private | Agriculture | 0.1940000(Hectare) | 0.1940000 |
| 23 | 3413/1 | Private | Agriculture | 0.1416000(Hectare) | 0.1416000 |
| 24 | 3423/1 | Private | Agriculture | 0.0570000(Hectare) | 0.0570000 |
| 25 | 3424/1 | Private | Agriculture | 0.1450000(Hectare) | 0.1450000 |
| 26 | 3424/10 | Private | Agriculture | 0.1010000(Hectare) | 0.1010000 |
| 27 | 3424/11 | Private | Agriculture | 0.2120000(Hectare) | 0.2120000 |
| 28 | 3424/2 | Private | Agriculture | 0.1470000(Hectare) | 0.1470000 |
| 29 | 3424/3 | Private | Agriculture | 0.0240000(Hectare) | 0.0240000 |
| 30 | 3424/4 | Private | Agriculture | 0.0030500(Hectare) | 0.0030500 |
| 31 | 3424/8 | Private | Agriculture | 0.0900000(Hectare) | 0.0900000 |
| 32 | 3424/9 | Private | Agriculture | 0.0850000(Hectare) | 0.0850000 |
| 33 | 3425 | Private | Agriculture | 0.3220000(Hectare) | 0.3220000 |
| 34 | 3426/1,3426/2,3426/3,3426/5,3426/6 | Private | Agriculture | 0.3610000(Hectare) | 0.3610000 |
| 35 | 3426/7 | Private | Agriculture | 0.1320000(Hectare) | 0.1320000 |
| 36 | 3426/8 | Private | Agriculture | 0.2430000(Hectare) | 0.2430000 |
| 37 | 3426/9 | Private | Agriculture | 0.0850000(Hectare) | 0.0850000 |
| 38 | 3439/2 | Private | Agriculture | 0.0520000(Hectare) | 0.0520000 |
| 39 | 3439/3 | Private | Agriculture | 0.4620000(Hectare) | 0.4620000 |
| 40 | 3441/1 | Private | Agriculture | 0.3450000(Hectare) | 0.3450000 |
| 41 | 3441/2 | Private | Agriculture | 0.1620000(Hectare) | 0.1620000 |
| 42 | 3441/3 | Private | Agriculture | 0.0500000(Hectare) | 0.0500000 |
| 43 | 3443/1 | Private | Agriculture | 0.0210000(Hectare) | 0.0210000 |
| 44 | 3443/2 | Private | Agriculture | 0.1260000(Hectare) | 0.1260000 |
| 45 | 3443/5 | Private | Agriculture | 0.3590000(Hectare) | 0.3590000 |
| 46 | 3443/6 | Private | Agriculture | 0.1210000(Hectare) | 0.1210000 |
| 47 | 3444 | Government | Non-Agriculture | 0.2550000(Hectare) | 0.2550000 |
| 48 | 3447 | Private | Agriculture | 0.0590000(Hectare) | 0.0590000 |

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 49 | 3448/1 | Private | Agriculture | 0.0820000(Hectare) | 0.0820000 |
| 50 | 3448/2 | Private | Agriculture | 0.1300000(Hectare) | 0.1300000 |
| 51 | 3462 | Government | Non-Agriculture | 0.2792000(Hectare) | 0.2792000 |
| 52 | 3826 | Government | Non-Agriculture | 0.0809000(Hectare) | 0.0809000 |
| 53 | 3827/2 | Private | Agriculture | 0.2320000(Hectare) | 0.2320000 |
| 54 | 3828/1,3828/2,3828/3,3828/4,3828/5 | Private | Agriculture | 0.4550000(Hectare) | 0.4550000 |
| 55 | 3829/1 | Private | Agriculture | 0.3340000(Hectare) | 0.3340000 |
| 56 | 3829/2,3830 | Private | Agriculture | 0.6550000(Hectare) | 0.6550000 |
| 57 | 3829/3 | Private | Agriculture | 0.6010000(Hectare) | 0.6010000 |
| 58 | 3832/8 | Private | Agriculture | 0.1080000(Hectare) | 0.1080000 |
| 59 | 3843 | Government | Non-Agriculture | 0.1781000(Hectare) | 0.1781000 |
| 60 | 3854/1 | Private | Agriculture | 0.1060000(Hectare) | 0.1060000 |
| 61 | 3854/2 | Private | Agriculture | 0.1660000(Hectare) | 0.1660000 |
| 62 | 3855/2 | Private | Agriculture | 0.0970000(Hectare) | 0.0970000 |
| 63 | 3856/1 | Private | Agriculture | 0.1040000(Hectare) | 0.1040000 |
| 64 | 3856/2 | Private | Agriculture | 0.2020000(Hectare) | 0.2020000 |
| 65 | 3857 | Private | Agriculture | 0.0240000(Hectare) | 0.0240000 |
| 66 | 3865/1 | Private | Agriculture | 0.2430000(Hectare) | 0.2430000 |
| 67 | 3865/2,3865/7 | Private | Agriculture | 0.0370000(Hectare) | 0.0370000 |
| 68 | 3865/5 | Private | Agriculture | 0.1790000(Hectare) | 0.1790000 |
| 69 | 3865/6 | Private | Agriculture | 0.2430000(Hectare) | 0.2430000 |
| 70 | 3865/8 | Private | Agriculture | 0.0100000(Hectare) | 0.0100000 |
| 71 | 3866/1 | Private | Agriculture | 0.0100000(Hectare) | 0.0100000 |
| 72 | 3866/2, 3866/4 | Private | Agriculture | 0.5000000(Hectare) | 0.5000000 |
| 73 | 3866/3 | Private | Agriculture | 0.0070000(Hectare) | 0.0070000 |
| 74 | 3868 | Private | Agriculture | 0.2830000(Hectare) | 0.2830000 |
| 75 | 3869/2 | Private | Agriculture | 0.0780000(Hectare) | 0.0780000 |
| 76 | 3869/3,3869/4,3869/5,3869/6 | Private | Agriculture | 0.2810000(Hectare) | 0.2810000 |
| 77 | 3869/9 | Private | Agriculture | 0.0230000(Hectare) | 0.0230000 |
| Village: Mudpar | | | | | |
| 1 | 117/6 | Private | Agriculture | 1.1433000(Hectare) | 1.1433000 |
| 2 | 118/1 | Government | Non-Agriculture | 0.7040000(Hectare) | 0.7040000 |
| 3 | 138 | Government | Non-Agriculture | 0.0230000(Hectare) | 0.0230000 |
| 4 | 149/1 | Private | Agriculture | 0.1802000(Hectare) | 0.1802000 |
| 5 | 149/2 | Private | Agriculture | 0.1418000(Hectare) | 0.1418000 |
| 6 | 150/1 | Private | Agriculture | 0.0243000(Hectare) | 0.0243000 |
| 7 | 150/2 | Private | Agriculture | 0.2630000(Hectare) | 0.2630000 |

| | | | | | |
|----|-------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 8 | 153/1 | Private | Agriculture | 0.1420000(Hectare) | 0.1420000 |
| 9 | 153/2 | Private | Agriculture | 0.1540000(Hectare) | 0.1540000 |
| 10 | 154/1 | Private | Agriculture | 0.0390000(Hectare) | 0.0390000 |
| 11 | 154/2 | Private | Agriculture | 0.3108000(Hectare) | 0.3108000 |
| 12 | 155/2 | Private | Agriculture | 0.0048000(Hectare) | 0.0048000 |
| 13 | 157/1 | Private | Agriculture | 0.7794000(Hectare) | 0.7794000 |
| 14 | 157/11 | Private | Agriculture | 0.2020000(Hectare) | 0.2020000 |
| 15 | 157/12 | Private | Agriculture | 0.2020000(Hectare) | 0.2020000 |
| 16 | 157/15 | Private | Agriculture | 0.5023000(Hectare) | 0.5023000 |
| 17 | 157/21 | Private | Agriculture | 0.0120000(Hectare) | 0.0120000 |
| 18 | 157/9 | Private | Agriculture | 0.0142000(Hectare) | 0.0142000 |
| 19 | 158/2 | Private | Agriculture | 0.0067000(Hectare) | 0.0067000 |
| 20 | 159 | Private | Agriculture | 0.1773000(Hectare) | 0.1773000 |
| 21 | 160/1,160/2 | Private | Agriculture | 0.2985000(Hectare) | 0.2985000 |
| 22 | 161/1 | Private | Agriculture | 1.0275000(Hectare) | 1.0275000 |
| 23 | 161/2 | Private | Agriculture | 0.0120000(Hectare) | 0.0120000 |
| 24 | 161/3 | Private | Agriculture | 0.5471000(Hectare) | 0.5471000 |
| 25 | 161/4 | Private | Agriculture | 0.5872000(Hectare) | 0.5872000 |
| 26 | 162/2 | Private | Agriculture | 0.0033000(Hectare) | 0.0033000 |
| 27 | 175/2 | Private | Agriculture | 0.1610000(Hectare) | 0.1610000 |
| 28 | 176/2 | Private | Agriculture | 0.1670000(Hectare) | 0.1670000 |
| 29 | 177/1 | Government | Non-Agriculture | 0.2690000(Hectare) | 0.2690000 |
| 30 | 177/2 | Private | Agriculture | 0.0356000(Hectare) | 0.0356000 |
| 31 | 179/1 | Private | Agriculture | 0.2020000(Hectare) | 0.2020000 |
| 32 | 179/10 | Private | Agriculture | 0.2280000(Hectare) | 0.2280000 |
| 33 | 179/11 | Private | Agriculture | 0.1792000(Hectare) | 0.1792000 |
| 34 | 179/2 | Private | Agriculture | 0.0560000(Hectare) | 0.0560000 |
| 35 | 179/3 | Private | Agriculture | 0.2020000(Hectare) | 0.2020000 |
| 36 | 179/4 | Private | Agriculture | 0.0184000(Hectare) | 0.0184000 |
| 37 | 179/5 | Private | Agriculture | 0.1137000(Hectare) | 0.1137000 |
| 38 | 179/6 | Private | Agriculture | 0.2020000(Hectare) | 0.2020000 |
| 39 | 179/8 | Private | Agriculture | 0.0060000(Hectare) | 0.0060000 |
| 40 | 179/9 | Private | Agriculture | 0.0259000(Hectare) | 0.0259000 |
| 41 | 180 | Private | Agriculture | 0.1974000(Hectare) | 0.1974000 |
| 42 | 182/1 | Private | Agriculture | 0.1076000(Hectare) | 0.1076000 |
| 43 | 182/2 | Private | Agriculture | 0.0320000(Hectare) | 0.0320000 |
| 44 | 182/3 | Private | Agriculture | 0.0280000(Hectare) | 0.0280000 |
| 45 | 310 | Government | Non-Agriculture | 0.6520000(Hectare) | 0.6520000 |
| 46 | 312 | Private | Agriculture | 0.0471000(Hectare) | 0.0471000 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 47 | 328 | Private | Agriculture | 0.1106000(Hectare) | 0.1106000 |
| 48 | 41/1 | Government | Non-Agriculture | 0.1197000(Hectare) | 0.1197000 |
| 49 | 41/5 | Government | Non-Agriculture | 0.1613000(Hectare) | 0.1613000 |
| 50 | 41/6 | Government | Non-Agriculture | 0.0462000(Hectare) | 0.0462000 |
| 51 | 76 | Government | Non-Agriculture | 0.2945000(Hectare) | 0.2945000 |
| 52 | 88 | Private | Agriculture | 0.2167000(Hectare) | 0.2167000 |
| 53 | 89 | Government | Non-Agriculture | 0.0280000(Hectare) | 0.0280000 |
| 54 | 90 | Government | Non-Agriculture | 0.0490000(Hectare) | 0.0490000 |
| 55 | 91 | Government | Non-Agriculture | 0.0520000(Hectare) | 0.0520000 |
| 56 | 92/3 | Private | Agriculture | 0.2832000(Hectare) | 0.2832000 |
| Village: Nawagaon | | | | | |
| 1 | 197/1 | Private | Agriculture | 0.3829000(Hectare) | 0.3829000 |
| 2 | 197/2 | Private | Agriculture | 0.2224000(Hectare) | 0.2224000 |
| 3 | 198/1 | Private | Agriculture | 0.1486000(Hectare) | 0.1486000 |
| 4 | 198/2 | Private | Agriculture | 0.2941000(Hectare) | 0.2941000 |
| 5 | 198/3 | Private | Agriculture | 0.0947000(Hectare) | 0.0947000 |
| 6 | 199/1 | Private | Agriculture | 0.0283000(Hectare) | 0.0283000 |
| 7 | 199/2 | Private | Agriculture | 0.1814000(Hectare) | 0.1814000 |
| 8 | 201/2 | Private | Agriculture | 0.0159000(Hectare) | 0.0159000 |
| 9 | 223/1 | Private | Agriculture | 0.1356000(Hectare) | 0.1356000 |
| 10 | 223/2 | Private | Agriculture | 0.1596000(Hectare) | 0.1596000 |
| 11 | 223/3 | Private | Agriculture | 0.1660000(Hectare) | 0.1660000 |
| 12 | 223/4 | Private | Agriculture | 0.0707000(Hectare) | 0.0707000 |
| 13 | 223/5 | Private | Agriculture | 0.4050000(Hectare) | 0.4050000 |
| 14 | 223/6 | Private | Agriculture | 0.1630000(Hectare) | 0.1630000 |
| 15 | 223/7 | Private | Agriculture | 0.4950000(Hectare) | 0.4950000 |
| 16 | 232/1 | Private | Agriculture | 0.0967000(Hectare) | 0.0967000 |
| 17 | 232/2 | Private | Agriculture | 0.0273000(Hectare) | 0.0273000 |
| 18 | 232/4 | Private | Agriculture | 0.0980000(Hectare) | 0.0980000 |
| 19 | 232/8 | Private | Agriculture | 0.0360000(Hectare) | 0.0360000 |
| 20 | 232/9 | Private | Agriculture | 0.0730000(Hectare) | 0.0730000 |
| 21 | 233/2 | Private | Agriculture | 0.0054000(Hectare) | 0.0054000 |
| 22 | 236/1 | Private | Agriculture | 0.2372000(Hectare) | 0.2372000 |
| 23 | 236/3 | Private | Agriculture | 0.2830000(Hectare) | 0.2830000 |
| 24 | 236/4 | Private | Agriculture | 0.0816000(Hectare) | 0.0816000 |
| 25 | 237/1 | Private | Agriculture | 0.2630000(Hectare) | 0.2630000 |

| | | | | | |
|----|-------------|------------|-------------|--------------------|-----------|
| 26 | 237/2 | Private | Agriculture | 0.3240000(Hectare) | 0.3240000 |
| 27 | 237/3 | Private | Agriculture | 0.1050000(Hectare) | 0.1050000 |
| 28 | 237/4 | Private | Agriculture | 0.2190000(Hectare) | 0.2190000 |
| 29 | 237/5 | Private | Agriculture | 0.1540000(Hectare) | 0.1540000 |
| 30 | 237/7 | Private | Agriculture | 0.1050000(Hectare) | 0.1050000 |
| 31 | 238/3 | Private | Agriculture | 0.2430000(Hectare) | 0.2430000 |
| 32 | 239 | Private | Agriculture | 0.9536000(Hectare) | 0.9536000 |
| 33 | 240 | Private | Agriculture | 0.0816000(Hectare) | 0.0816000 |
| 34 | 241/1 | Private | Agriculture | 0.2395000(Hectare) | 0.2395000 |
| 35 | 241/3 | Private | Agriculture | 0.0508000(Hectare) | 0.0508000 |
| 36 | 247/1 | Private | Agriculture | 0.3570000(Hectare) | 0.3570000 |
| 37 | 247/2 | Private | Agriculture | 0.1700000(Hectare) | 0.1700000 |
| 38 | 247/3 | Private | Agriculture | 0.0770000(Hectare) | 0.0770000 |
| 39 | 247/4 | Private | Agriculture | 0.1210000(Hectare) | 0.1210000 |
| 40 | 247/6 | Private | Agriculture | 0.2020000(Hectare) | 0.2020000 |
| 41 | 247/7 | Private | Agriculture | 0.1900000(Hectare) | 0.1900000 |
| 42 | 247/8 | Private | Agriculture | 0.3220000(Hectare) | 0.3220000 |
| 43 | 253/1 | Private | Agriculture | 0.0650000(Hectare) | 0.0650000 |
| 44 | 253/2 | Private | Agriculture | 0.0296000(Hectare) | 0.0296000 |
| 45 | 253/4 | Private | Agriculture | 0.0971000(Hectare) | 0.0971000 |
| 46 | 253/5 | Private | Agriculture | 0.1133000(Hectare) | 0.1133000 |
| 47 | 254/2 | Private | Agriculture | 0.0881000(Hectare) | 0.0881000 |
| 48 | 279 | Government | Padat | 1.6326000(Hectare) | 1.6326000 |
| 49 | 280/1 | Private | Agriculture | 0.3120000(Hectare) | 0.3120000 |
| 50 | 280/2 | Private | Agriculture | 0.1261000(Hectare) | 0.1261000 |
| 51 | 280/3 | Private | Agriculture | 0.0810000(Hectare) | 0.0810000 |
| 52 | 280/4 | Private | Agriculture | 0.0890000(Hectare) | 0.0890000 |
| 53 | 292/3,292/4 | Private | Agriculture | 0.1938000(Hectare) | 0.1938000 |
| 54 | 293 | Private | Agriculture | 0.0012000(Hectare) | 0.0012000 |
| 55 | 297/3 | Private | Agriculture | 0.0271000(Hectare) | 0.0271000 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 56 | 297/4 | Private | Agriculture | 0.2814000(Hectare) | 0.2814000 |
| 57 | 298/1 | Private | Agriculture | 0.1410000(Hectare) | 0.1410000 |
| 58 | 298/2 | Private | Agriculture | 0.1420000(Hectare) | 0.1420000 |
| 59 | 299 | Private | Agriculture | 0.2925000(Hectare) | 0.2925000 |
| 60 | 300/1 | Private | Agriculture | 0.1170000(Hectare) | 0.1170000 |
| 61 | 300/3 | Private | Agriculture | 0.1925000(Hectare) | 0.1925000 |
| 62 | 300/5 | Private | Agriculture | 0.0810000(Hectare) | 0.0810000 |
| 63 | 301 | Private | Agriculture | 0.1145000(Hectare) | 0.1145000 |
| 64 | 302/1 | Private | Agriculture | 0.0757000(Hectare) | 0.0757000 |
| 65 | 309/3 | Private | Agriculture | 0.0083000(Hectare) | 0.0083000 |
| 66 | 94 | Government | Non-Agriculture | 0.0149000(Hectare) | 0.0149000 |
| Total | | | | 37.0603 | 37.0603 |

[F. No. NHAI/LA/27011/02/Notif.-C.G./Bilaspur/3A15]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.